


COVID-19 INDIA
as on : 15 May 2020, 08:00 IST (GMT+5:30)

For any technical enquiry with respect to COVID19, you may kindly email on technicalquery.covid19@gov.in
Aarogya Setu IVRS  1921

Latest Updates

15.05.2020

Advisory for managing Health care workers working in COVID and Non-COVID areas of the hospital **NEW**

COVID-19 Statewise Status (Click to expand)

Resources

Travel Advisories	20.03.2020 Instructions to all major and minor ports for dealing with(COVID-19)
Behavioural Health : Psycho-Social toll free helpline-08046110007	19.03.2020 Additional Travel Advisory
Citizens	18.03.2020 Standard Operating Procedure for Passenger Movement post Disembarkation
Hospitals	17.03.2020 Additional Travel Advisory
Training Material	16.03.2020 Additional Travel Advisory
States / Departments / Ministries	14.03.2020 Restrictions on International passenger traffic through Land Check Posts
Employees	13.03.2020 Restrictions on International passenger traffic through land check posts-COVID 19
Awareness Material	
Inspirational series on Healthcare Service Personnel	11.03.2020

Awareness

English Hindi



Ministry of Health and Family Welfare
Government of India

NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)



There is enough of everything, everyday for everyone
Don't Panic | Don't Rush | Don't Overstock



Maintain at least 1 metre distance in market places, medical stores, hospitals, etc.



Show patience and keep calm while shopping for essential goods/medical supplies



Avoid frequent trips to the market to buy groceries/medical supplies



Avoid shaking hands and hugging as a matter of greeting



Avoid non-essential social gatherings at home



Don't allow visitors at home or visit someone else's home

Observe social distancing at all times

If you have symptoms like cough, fever or difficulty in breathing, avoid any kind of exposure and immediately call the helpline numbers

For information related to COVID-19

Call Ministry of Health and Family Welfare, Government of India's 24x7 Control Room Number
1019 (Toll Free) | 011-23116014 | Email at ncov2019@india.gov, ncov2019@gmail.com

Together we will fight COVID-19



ncov19@wa



govtindia



govt_of_india



govtindia

design: @MONIJA0001@INDIA



संस्कृत एवं परिवार कल्याण विभाग
समाज कल्याण

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)



रोज़मर्रा की सभी वस्तुएं हर किसी के लिये हमेशा उपलब्ध हैं
घबराएं नहीं | भीड़ न लगाएं | जमाखोरी न करें



सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों आदि जगहों पर सज से सज 2 मीटर की दूरी बनाएं रखें

फेरे लुटे और अनुपयुक्त सामान्य स्थितियों संबंधित सामग्रियों की खरीदारी समय के साथ करें

विकल्प: स्थितियों सामग्री खरीदने के लिए बस-बस सावधान न जाएं

अधिकतर के लिए दूध न विकल्प और न ही लाने लगाने

पर पर अनुपयुक्त लोगों की भीड़ जगह न करें

विकल्प नगाड़ी न करें या किसी दुकान के पर पर न जाएं

एक-दूसरे से अधिक दूरी हमेशा बनाए रखें

यदि साथ लगे, दुकान या बाजार जैसे में खरीदारी किने लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो खुली जगहों में न जाएं और दुकान विकल्पद्वारा सेवाएं प्राप्त करें

COVID-19 संबंधित जानकारी के लिए

समाज कल्याण विभाग का सम्पर्क पर परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण से प्राप्त जानकारी के लिए सम्पर्क करें।
0291-254 41-029 23398042, 2441 41 25441000@punjab.gov.in, 25441000@punjab.gov.in

दूरी बिलगत COVID-19 से लड़ना है

0291-25441000@punjab.gov.in



स्वास्थ्य एवं कुटुंब कल्याण विभाग
सर्वोपकारी



Help us to
help you



नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

COVID-19 परीक्षण की आवश्यकता – कब और कैसे?

सभी व्यक्तियों की जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि

सुझाव है कि वे जो अपनी व्यक्तियों में चला रहा है, जिन्होंने COVID-19 से प्रभावित लोगों की सलाह की हो या संक्रमित व्यक्ति को संपर्क में रहे हो

किन लोगों का परीक्षण करना है

उन सभी व्यक्तियों का, जिनमें लक्षण मौजूद हो और

- जिन्होंने पिछले 14 दिनों में कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो
- जो किसी संक्रमित व्यक्ति को संपर्क में आये हो
- जो स्वास्थ्यकर्मी हैं
- अस्पतालों में नती सीविकर एस्टूट रेसिपिटेंट्स इन्फेस (SARS), इन्फ्लुएंजा ल्यूक इन्फेस (ILI) या सीविकर निरोधिका जैसी बीमारियों को सही तरीका

ऐसे लक्षण-रहित व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति से प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम संपर्क में आते हैं, उनका परीक्षण एक बार संपर्क में आने के 14 दिनों और 14 दिनों के बीच में किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम वाले संपर्क निम्न हैं:

- जो संक्रमित व्यक्ति को सलाह एक ही घर में रह रहे हो
- जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO, एच.डी.) द्वारा प्रभावित व्यक्ति सुझाव मानने के बिना किसी संक्रमित व्यक्ति की जांच की हो

जांच के लिए सरकारी एवं निजी प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है: kcrnrc.in

अधिक जानकारी के लिए

राज्य हेल्थसेक्टर में या सलाह एवं निरोधक कल्याण विभाग,
सलाह संचालन के 24x7 हेल्थसेक्टर सपोर्ट पर कॉल करें

1075 (टोल फ्री) | 011-23978046

ई-मेल: ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com





Ministry of Health & Family Welfare
Government of India



Help us to
help you



NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

Protective measures against Coronavirus



A distance of at least 1 meter is necessary to ensure safety for all



Wash your hands with soap and water regularly



If soap and water is not available, use hand sanitizer with at least 60% alcohol



Wash hands before touching eyes, nose and mouth



Throw used tissues into closed bins immediately after use



Cover your nose and mouth with handkerchief/tissue while sneezing and coughing



Avoid mass gathering and crowded places

If you are experiencing symptoms like fever, cough or difficulty in breathing, please call the state helpline number or 24x7 helpline numbers of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and follow the instructions.

design: 17/03/2020/1000000000

1075 (Toll Free) | 011-23978046

Email for: ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com

[#atthegovin](#) [@atthegovin](#) [atthegovin_A3A](#) [atthegovin](#)



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भारत सरकार




Help us to
help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)



कोरोनावायरस से बचाव के उपाय



आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी,
सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी



आपने हाथों को साबुन-पानी
समय और पानी से धोएं।



समय और पानी उपलब्ध न हो तो,
कान से कान-दोनों, आंखों-दोनों
और तलियार का उपयोग करें




आपने आंखों, नाक और मुँह को खुले
से अपने हाथों को नो छें



संभव किए गए दिग्ग को
दूरत से दूरी-दूरी से करें



दोस्तों और लोगों के साथ आपने नाक
और मुँह को छानना, दिग्ग से न करें



सामाजिक इलाक़ों और
भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें

आपका आपका सुरक्षा, आंखों का संरक्षण करने से भीतरने किसे साधन को साधन कर रहे हैं, वे सुरक्षा वाले इलाक़ों में या आपका पूरे जीवन कायम में, आपका सुरक्षा के 100% इलाक़ों में या भीड़ में और दिग्गों का साधन करें

© 2020 Health.gov.in

1075 (टोल फ्री) | 011-23978046

ई-मेल को: ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com

[health.gov.in](https://www.health.gov.in) | [facebook](https://www.facebook.com/ncov2019) | [twitter](https://twitter.com/ncov2019) | [youtube](https://www.youtube.com/channel/UC...)



TRAVELLERS RETURNING TO INDIA



Inform the airline crew if you have cough, fever or difficulty in breathing



Wash hands from the airline crew if you have cough, fever or difficulty in breathing and wear it at all times



Avoid close contact with family members or fellow travellers



Follow the directions of airline crew while disembarking



At airport, provide your travel itinerary and submit Self-reporting Form to Report Health Officer



If you have returned from fever-affected countries* in the past 14 days and have cough, fever or difficulty in breathing, **call the helpline number immediately** and follow the instructions

*List of countries affected by COVID-19: <https://www.moh.gov.in>

Stay protected!

Stay safe from Novel Coronavirus!

Contact **1075** Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

1075 and **+91-11-23978046**
ncov2019@gmail.com



भारत वापस लौटने वाले यात्री



यहाँ आना ही काफी है, मुस्कान से सजाए चेहरे में स्वास्थ्य।
इसे ही सुरक्षा के सबसे बेहतरीन तरीके मानें।



यहाँ आना ही काफी है, मुस्कान से सजाए चेहरे में स्वास्थ्य।
इसे ही सुरक्षा के सबसे बेहतरीन तरीके मानें।



यहाँ आना ही काफी है, मुस्कान से सजाए चेहरे में स्वास्थ्य।
इसे ही सुरक्षा के सबसे बेहतरीन तरीके मानें।



यहाँ आना ही काफी है, मुस्कान से सजाए चेहरे में स्वास्थ्य।
इसे ही सुरक्षा के सबसे बेहतरीन तरीके मानें।



यहाँ आना ही काफी है, मुस्कान से सजाए चेहरे में स्वास्थ्य।
इसे ही सुरक्षा के सबसे बेहतरीन तरीके मानें।



यहाँ आना ही काफी है, मुस्कान से सजाए चेहरे में स्वास्थ्य।
इसे ही सुरक्षा के सबसे बेहतरीन तरीके मानें।

यहाँ आना ही काफी है, मुस्कान से सजाए चेहरे में स्वास्थ्य।
इसे ही सुरक्षा के सबसे बेहतरीन तरीके मानें।

सुरक्षित रहें! जीवन वापस आने पर सुरक्षा के साथ रहें।

भारत का जीवन वापस सामान्य बनाए रखें।
24x7 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
1075 या +91-11-23978046
msa@2020@igmail.com



Help us to help you

NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)



Protect yourself and others!

Follow these **Do's** and **Don'ts**

Do's



Practice frequent hand washing. Wash hands with soap and water or use alcohol based hand rub. Wash hands even if they are notchy clean.



Cover your nose and mouth with hands/tissue/cloth while sneezing and coughing.



Wipe used tissues into closed bins immediately after use.



See a doctor if you feel unwell (fever, difficulty breathing and cough). While visiting doctor wear a mask/cloth to cover your mouth and nose.



If you have these symptoms please call State helpline number or Ministry of Health & Family Welfare's 24x7 helpline at 011-23979046.



Avoid participating in large gatherings.



Avoid a close contact with anyone if you're experiencing cough and fever.



Touch your eyes, nose and mouth.



Sneeze in public.

Don'ts

Together we can fight Coronavirus

For further information :

Call at Ministry of Health, Govt. of India's 24x7 control room number +91-11-2397 9046

Email at ncov2019@gmail.com

